

NT>

Title: Regarding regularization of unauthorized colonies in Delhi.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अनोथराइज्ड कालोनियों की एक जटिल समस्या खड़ी है, लगभग 30-40 लाख लोग अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। कालोनियों को पास कराने का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। कोई भी नागरिक सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। हम वहां से 3-3 बार जीतकर आये हैं, लेकिन यहां तक कि एम.पी.लेड. फंड से हम वहां पर नाली, खड़जे और गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जबकि इन लोगों ने हमें वोट दिया है। हमें जानकारी मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने प्रधानमंत्री जी से मिलकर दो करोड़ को बढ़ाकर तीन करोड़ किया है, हमें लगता है ~~वे~~ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किया नहीं है, मैंने उनसे विनती की है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : करने का प्रस्ताव रखा है। आपने किया है तो हमें उम्मीद है कि हो ही जायेगा। इससे हमें बहुत खुशी हुई, उसे आप ठीक करिये। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस जगह से हम जीतकर आ रहे हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उन कालोनियों में सुविधाओं के लिए हम एम.पी.लेड. से अपना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी इजाजत हमें दिलाई जाये, क्योंकि कालोनियों में 30-40 लाख लोग रहते हैं और अधिकांश हमारे मतदाता हैं। हमें इजाजत नहीं मिलने से लोगों को बहुत परेशानी रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप निर्देश दें कि हमें वहां काम करने की इजाजत दी जाये।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I would like to intervene for a minute. We have come to know through newspapers that the Minister of Urban Development and Poverty Alleviation, Shri Ananth Kumar has declared unauthorised colonies of Delhi as regularised. When Parliament is in Session, such a major policy decision concerning the national Capital should have been announced on the floor of the House and also the concurrence of, and consultation with, the State Government should have taken place. Nothing of this kind has taken place. Such a kind of political manipulation outside the House is not approved. This is very unfair.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमारे इसी आशय के नोटिस को बाद में लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जब आपका नम्बर आयेगा तो मैं समय दूंगा।